

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 653]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 12 नवम्बर 2022 — कार्तिक 21, शक 1944

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2022

अधिसूचना

क्र. 20/चार/मत. मुद्रण/वि.स.उनिर्वा./80-भानु./2022/3939. — भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली की अधिसूचना संख्या-52/2022/SDR/Vol.I, दिनांक 11-11-2022 छत्तीसगढ़ प्रदेश की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-80-भानुप्रतापपुर (अजजा) के लिये विधानसभा उप निर्वाचन में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के वर्ग संबंधी सूचना का एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवंबर, 2022

अधिसूचना

सं. 52/2022/एसडीआर/खंड-I. — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिह्नित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (अ.) दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के जरिए यथा-संशोधित, के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चल रहे उप निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,

हस्ता./-
(एस.बी. जोशी)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 11th November, 2022

NOTIFICATION

No.52/2022/SDR/Vol.I. — In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 80 years and elector with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the ongoing Bye Elections to the Parliamentary/Assembly Constituencies of Uttar Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar & Chhattisgarh, notified under Section 30 of Representation of the People, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, and the directions and guidelines issued by the Election Commission, on the subject.

By Order,

Sd/-
(S.B. Joshi)
Principal Secretary.